

# SMC Credits Limited.

24, Ashoka Chambers, 5-B Rajindra Park, Pusa Road, New Delhi – 110060

CIN: L65910DL1992PLC049566

Email id: [smccorp011@gmail.com](mailto:smccorp011@gmail.com) Ph: 011-45012880

website: [www.smccredits.com](http://www.smccredits.com)

---

November 16, 2025

To,  
The Secretary  
BSE Limited,  
Compliance Department,  
25<sup>th</sup> Floor, Phiroz Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai – 400 001

**Scrip Code: 532138**

**Sub: Newspapers publication regarding the Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2025.**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provision of Regulation 47 read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisements regarding the publishing of Unaudited Financial Results (standalone) for the quarter and half year ended September 30, 2025.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

**For SMC CREDITS LIMITED**

**Rajesh**  
**Goenka**

Digitally signed  
by Rajesh Goenka  
Date: 2025.11.16  
10:40:14 +05'30'

**Rajesh Goenka**  
**Whole time director & CFO**  
**DIN:00298227**

**Encl.: a/a**



## एसएमसी क्रेडिट्स लिमिटेड

24, अशोका चैम्बर्स, 5-बी राजिंद्रा पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली – 110060

सीआईएन: L65910DL1992PLC049566

ईमेल आईडी: smccorp011@gmail.com, फोन: 011–45012880, वेबसाइट: www.smccredits.com

## 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों के विवरण

निदेशक मंडल ने 14 नवंबर, 2025 को आयोजित बैठक में 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और

छमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को स्वीकृति दी है।

ये परिणाम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com (URL: https://www.bseindia.com/corporates/anndet\_new.aspx?newsid=5bb90dfd-33f9-452c-892d-f7b44cb3336c) और कंपनी की वेबसाइट www.smccredits.com पर उपलब्ध हैं।

(URL:-

https://www.smccredits.com/productpicture/802SMC%20%20Qtr%20%20UFR%20with%20LR.pdf)

इसे यहां पर प्रदान किए गए त्वरित प्रतिक्रिया कोड को स्कैन करके भी देखा जा सकता है:

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 15 नवंबर, 2025

नोट – उपरोक्त सूचना सेवा (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47(1) के सहपठित विनियम 33 के अनुरूप है।

बोर्ड के आदेश द्वारा  
कृते एसएमसी क्रेडिट्स लिमिटेड

हस्ता/—

राजेश गोयनका  
पूर्णकालिक निदेशक एवं सीएफओ

डीआईएन: 00298227

नोट – उपरोक्त सूचना सेवा (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47(1) के सहपठित विनियम 33 के अनुरूप है।

## NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED

CIN : L51909DL1984PLC019485

Regd Off: 9062/47, Ram Bagh Road, Azad Market, Delhi- 110006

Tel. No.: 01123517516-19, Email : cs@neccgroupp.com, Website : www.neccgroupp.com

## EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025



Moving You Ahead

(Rs. in Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
		September 30, 2025 (Un-Audited)	June 30, 2025 (Un-Audited)	September 30, 2024 (Un-Audited)	September 30, 2025 (Un-Audited)	September 31, 2025 (Audited)
1	Income from Operations	7,074.60	6,909.98	8,194.16	13,984.58	15,957.58
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	265.05	240.29	402.21	505.34	928.48
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	265.05	240.29	402.21	505.34	928.48
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	181.80	178.03	287.30	359.83	654.71
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	192.61	181.64	288.67	374.25	641.97
6	Equity Share Capital (Face Value Rs 10/- per share)	10,000.00	10,000.00	9,995.49	10,000.00	9,995.49
7	Reserve excluding Revaluation Reserve as per Balance Sheet of previous year	-	-	-	12,280.38	11,524.93
8	Earnings Per Share (of Rs 10/-each) (for continuing and discontinued operations)					
a) Basic		0.19	0.18	0.29	0.37	0.66
b) Diluted		0.19	0.18	0.29	0.37	0.66

## Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results filed with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The figures are available on the website of the Company at [www.neccgroupp.com](http://www.neccgroupp.com) and website of Stock exchanges i.e. [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).
- The above un-audited financial results for the quarter and half year ended September 30, 2025 were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on November 14, 2025
- The figures of previous quarter/financial year were regrouped/rearranged where ever necessary.

For North Eastern Carrying Corporation Limited

Sd/-

Sunil Kumar Jain

Chairman &amp; Managing Director

DIN - 00010695

Place: Delhi

Date : November 14, 2025

शाखा: हरनई, ग्राम व पोस्ट चॉंदपुर,  
जिला शाहजहाँपुर, उ.प्र. 242401, भारत  
ईमेल: harnah@bankofbaroda.com

## कब्जा नोटिस (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अन्तर्गत)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त कियों के अनुपालन में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैंक ने कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर रकम का भुगतान करने हेतु कहते हुए यहां निम्नवर्णित तथा प्रत्येक खाते के समक्ष वर्णित तिथि को गांण सूचना जारी की थी। कर्जदार रकम का भुगतान करने में असफल रहे एतद्वारा आम नागरिकों तथा कर्जदारों को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष वर्णित तिथियों को कथित नियम के नियम 6 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (4) के अधीन उन्हें / उनको प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यह। निम्न वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। खासतौर से कर्जदारों और आम नागरिकों को रापण्टिके के साथ कोई भी लेन-देन करने के प्रति एतद्वारा सावधान किया जाता है। सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन, रकम और उनका व्याज बैंक ऑफ बड़ौदा, के प्रभार पर निर्भर करेगा। जिन सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया गया है, उनके विवरण निम्नानुसार है -

उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग नोटिस की तिथि और नोटिस के अनुसार राशि	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण	कब्जे लेने की तिथि
1. मैसर्स आर.एस. फिलिंग स्टेशन (प्रो. स्वीन्ड सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह (फर्मी) ग्राम: हरनई, खुदर, शाहजहाँपुर सूची 242123.	18.06.2025 रुपये 23,07,212.34 (रुपये तेईस लाख साठ हजार दो सौ बारह और चौदिस पैसा मात्र) दिनांक 18.08.2025 तक	संपत्ति जिनके नाम पर पंजीकृत है उनका नाम: श्री रविन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह, निवासी मोहल्ला नववीन (वर्तमान मोहल्ला इन्द्रा नगर), शाहजहाँपुर विक्रय विलेख नं. 8038 दिनांक 28-12-2001, गाय नं. 1638 (विक्रय विलेख के अनुसार) संपत्ति की स्थिति: मोहल्ला नववीन, ग्राम सहर खसुतारी एन. जेड.ए., अंडर चुंगी (वर्तमान मोहल्ला इन्द्रा नगर), परगना एवं तहसील सदर, शाहजहाँपुर।	11.11.2025
2. श्री राधेचंद्र पुत्र स्वर्णाय रविंदर सिंह (कानूनी उत्तराधिकारी) मोहल्ला इन्द्रा नगर), शाहजहाँपुर, सूची 242405.		संपत्ति की चौदहरी: संपत्ति के विक्रय विलेख के अनुसार उत्तर: रास्ता मुसरका कच्चा, दक्षिण: श्री साजिज खान आदि का मकान, पूर्व: आराजी एवं श्री राधेचंद्र का मकान, पश्चिम: विखेता की आराजी। क्षेत्रफल: 300.16 वर्ग मीटर।	
3. श्री जसकृष्ण सिंह (गारंटर) ग्राम: हरनई पोस्ट चॉंदपुर, खुदर, शाहजहाँपुर सूची 242123.	+ व्याज व अन्य व्यय प्रभावी।		

दिनांक: 16.11.2025

स्थान: हरनई

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

 <b>UFSL</b> <i>We Support Your Goals</i>	<b>USHA FINANCIAL SERVICES LIMITED</b>	
	CIN: L74899DL1995PLC068604	
	Regd. Office: Plot No. 73, First Floor, Patparganj, Industrial Area, East Delhi, Delhi, India, 110092	
	Corporate Office: 3rd Floor Plot No 40, Near Wave Cinema, Kaushambi, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India, 201012	
	Website: <a href="http://www.ushafinancial.com">www.ushafinancial.com</a>   Email: <a href="mailto:compliance@ushafinancial.com">compliance@ushafinancial.com</a>   Tel: +91204320755	
	<b>EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025</b>	

## EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2025 (unaudited)	30.06.2025 (unaudited)	30.09.2025 (unaudited)	30.09.2024 (unaudited)	31.03.2025 (audited)
1	Total Income from Operations	1,693.61	1,737.89	1,357.89	3,431.50	6,096.11
2	Profit before exceptional items and tax	532.15	713.90	557.03	1,246.05	1,766.66
3	Profit before tax	532.15	713.90	557.03	1,246.05	1,766.66
4	Profit after tax	397.55	534.52	419.44	932.07	781.46
5	Total Comprehensive Income for the year/period	397.72	534.69	419.61	932.41	781.80
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs 10 each)	4,347.53	2,173.76	1,587.76	4,347.53	1,587.76
7	Other equity	17,303.15	19,102.54	9,576.75	17,303.15	9,576.75
8	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each)					
Basic (in Rs.) (not annualised)		0.91	1.23	1.12	2.14	2.08
Diluted (in Rs.) (not annualised)		0.91	1.23	1.12	2.14	2.08

## Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (NSE) and on the Company's website [www.ushafinancial.com](http://www.ushafinancial.com) that can also be accessed through the QR Code given below.
- The financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principal in Ind AS 34 - Interim Financial Reporting, prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.
- The Company is a Non Banking Financial Company (NBFC) engaged primarily in the business of lending to Financial Institutions, Corporates and individuals etc. on PAN India basis. Accordingly, there are no separate reportable segments in accordance with the requirement of Ind AS 108 - Operating Segments".
- The Company has adopted Indian Accounting Standard (Ind AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) with effect from 01.04.2025. Accordingly, the financial result for the quarter and half year ended 30.09.2025 are in compliance with Ind AS and the result for the comparative quarter ended 30.06.2025 & 30.09.2024 and the previous year ended 31.03.2025 are also compliant with Ind AS.
- Figures for the previous periods have been re-grouped/ rearranged/ restated wherever necessary to make them comparable with those of the current period.



For USHA FINANCIAL SERVICES LIMITED

Sd/-

Mr. Rajesh Gupta

Managing Director

DIN: 01941985

Place : Delhi

Date : 16/11/2025

पृष्ठ नं. 14 | विनियमन-39(2) | पृष्ठ 1

वसुली अधिकांश 1/11 का कार्यालय

ऋण वसुली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2)

4थी मंजिल, चौदह गारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

मांग सूचना

ऋण वसुली और दिवालानियम अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत सूचना

आसली/204/2024 07.10.2025

बैंक ऑफ बड़ौदा वनाम फॉरेनहाइट ऑटोमोबाइल्स प्रा. लि.

(सीडी 1) फॉरेनहाइट ऑटोमोबाइल्स प्रा. लि.,

68/3, नजफगढ़ रोड, मोती नगर, नई दिल्ली 110015 वेस्ट, दिल्ली-110048

और साम की. सी-197, सेकंड फ्लोर ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली 110048

(सीडी2) श्री सुमित नंद, निदेशक मैसर्स फॉरेनहाइट ऑटोमोबाइल्स प्रा. लि.

68/3, नजफगढ़ रोड, मोती नगर, नई दिल्ली-110015

(सीडी3) श्री कुन्तल रामचन्द्र, निदेशक मैसर्स फॉरेनहाइट ऑटोमोबाइल्स प्रा. लि.

68/3, नजफगढ़ रोड, मोती नगर, नई दिल्ली-110015

(सीडी4) मैसर्स रैलमैन ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड

डी-11, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, नई दिल्ली 110020

(सीडी 5) श्री सुमित नंद

एफ-1/9, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-क नई दिल्ली 110020

(सीडी 6) श्री कोनाक नंद

एफ-1/9, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-क नई दिल्ली 110020

(सीडी7) सुशी मेघना हर्जन चौकरी

एफ-1/9, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-क नई दिल्ली 110020

आपको यह सूचित किया जाता है कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर, ऋण वसुली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2) द्वारा दृष्ट/842/2024 में पारित आदेशों के अनुसार में जारी वसुली प्रमाणपत्र के अनुसार, आपके विरुद्ध (संवर्त रूप से) और अलग-अलग/पूर्ण रूप से/सीमित रूप से) रु. 4,33,16,745/- (रुपये चार करोड़ तीस लाख सौह्र हजार सात सौ पैतालिस मात्र) की राशि, साथ ही 12/08/2016 से वसुली होने तक 12.55% साधारण वार्षिक व्याज की दर से वादकर्ता और भीषण का व्याज तथा रु. 1,50,000/- (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) की लागत देय हो गई है।

2. आपको एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर वसुली बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसुली अधिनियम, 1993 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

3. आपको एतद्वारा आदेश दिया जाता है कि आप अगली सुनवाई की तारीख को या उससे पहले अपने परिसंपत्तियों का विवरण एक साथ पत्र पर धोषित करें।

4. आपको आपको की कार्यवाही के लिए 01/12/2025 को पूर्ण. 10-30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।


5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप निम्नलिखित का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:- (क)

प्रमाणपत्र/न्यायन कार्रवाई के इस नोटिस के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय व्याज।

(ख) इस नोटिस और वारंटों तथा अन्य प्रक्रियाओं की तामीन और देय राशि की वसुली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियों के संबंध में किए गए सभी लागतें, शुल्क और खर्च।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत तिथि 07/10/2025 को जारी किया गया:

वसुली अधिकारी, ऋण वसुली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2)

शाखा: गोविंदगंज, हौकी ग्राउण्ड के पास, टाउनहॉल, जिला शाहजहाँपुर, उ.प्र. 242001 (उ.प्र.) इंडिया.  
मोबाईल: 8477009771, ईमेल: shacon@bankofbaroda.com

सिक्योरिटी इंटररेस्ट (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) और/ या नियम 8(6) के अंतर्गत सूचना

विषय: वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 13 (8) के अंतर्गत विमोचन के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6 (2) और/ या नियम 8 (6) के अनुपालन में निम्नलिखित उधारकर्ताओं और जमानतदारों (विवरण नीचे दिया गया है) को नोटिस जारी किया और पंजीकृत डाक द्वारा भेजा, लेकिन पते पर दरवाजा बंद मिला।)

जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी ने सुरक्षित ऋणदाता बैंक होने के नाते SARFAESI अधिनियम 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (जिसे आगे 'नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित, मांग नोटिस जारी किया है जिसमें आपसे ऋणी/बंधकर्ता/गारंटर होने के नाते उक्त नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर उक्त मांग नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है।

और चूंकि ऋणी/ गारंटर राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 4 और नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षित परिसंपत्तियों का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। विवरण नीचे अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित है।

सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने के बाद भी, आपने उपरोक्त सांकेतिक कब्जा नोटिस में उल्लिखित बैंक को देय राशि का भुगतान नहीं किया है। आपका ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस नोटिस की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर लागू व्याज, लागत, शुल्क और व्यय के साथ कब्जा नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करें और नीचे उल्लिखित अनुसार सुरक्षित परिसंपत्ति को विमोचित। यदि आप इस सूचना की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर उपर्युक्त बकाया राशि का भुगतान करने और सुरक्षित संपत्ति को विमोचित में विफल रहते हैं, तो बैंक ई-नीलामी विक्री सूचना प्रकाशित करके सार्वजनिक ई-नीलामी के माध्यम से सुरक्षित संपत्ति को बेचने के लिए बाध्य होगा। ई-नीलामी की तिथि, समय और संपत्ति का आरक्षित मूल्य आपको अलग से सूचित किया जाएगा।

क्र. सं.	शाखा/ कर्जदार / जमानतकर्ता का नाम	मांग सूचना / कब्जा सूचना विमोचन सूचना की तिथि	कब्जा सूचना के प्रकाशन की तिथि (केवल अलग सम्पत्ति के लिए)	कब्जे का प्रकार	सम्पत्तियों का विवरण
1.	उधारकर्ता: 1. श्री रमेश चंद्र पुत्र तौले राम वर्मा। निवासी ग्राम मऊ खालसा, पोस्ट बसुलिया, तहसील सदर, शाहजहाँपुर - 242001. जमानतकर्ता: राम चंद्र सिंह पुत्र विश्राम सिंह। निवासी ग्राम मऊ खालसा, पोस्ट बसुलिया, तहसील सदर, शाहजहाँपुर - 242001.	30.06.2025 30.10.2025 06.11.2025	04.11.2025	सांकेतिक	आवासीय संपत्ति का साम्प्रिक बंधक, ग्राम मऊ खालसा, परगना तहसील सदर, शाहजहाँपुर में स्थित, पंजीकृत दिनांक 09.10.2012 को विक्रय विलेख नं. बही नं.-1, जिल्द नं. 7769, पेज नं. 305 से 322, क्रमांक नं. 10848 के तहत उप-पंजीयक कार्यालय सदर में पंजीकृत है, मालिक श्री रमेश चंद्र पुत्र तौले राम, प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 82.42 वर्ग मीटर।

स्थान: शाहजहाँपुर।

दिनांक: 16.11.2025

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा।

## यूनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ग्रिपवेल हाऊस, ब्लॉक-5, सेक्टर-सी 6 एवं 7, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

कॉर्पोरेट कार्यालय: प्रथम मंजिल बी 208, ए 1 एवं 2, फेस-बी, नौयड-201305, उ.प्र., इण्डिया

CIN: L74899DL1994PLC061753, दूरभाष: +91 120 4581400

ईमेल: compliance.officer@unipartsgroup.com; वेबसाइट: www.unipartsgroup.com



30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक के अनअंकेशित समेकित एवं अनअंकेशित एकीकृत वित्तीय परिणामों का उद्घरण

(आईएनआर मिलियन में)

		एकीकृत					
क्र० सं०	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त अर्धवार्षिक		समाप्त वार्षिक
		30-09-2025	30-06-2025	30-09-2024	30-09-2025	30-09-2024	31-03-2025
		अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित
1	संचालन से कुल आय	2,138.89	1,674.81	1,806.51	3,813.70	3,383.47	6,450.30
2	अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले)	527.19	196.78	416.33	723.97	593.35	947.09
3	कर से पहले अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	527.19	196.78	416.33	723.97	593.35	947.09
4	कर के बाद अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	473.44	146.26	385.30	619.70	516.32	829.25
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	444.40	130.59	350.24	574.99	514.65	810.51
6	युक्तता इक्वीटी कैपीटल (सममूल्य रु० 10/- प्रति शेयर)	451.34	451.34	451.34	451.34	451.34	451.34
7	रिजर्व रिवेल्युएसन रिजर्व को छोड़कर जैसा कि तुलन पत्र की तिथि को						5,288.36
8	प्रति इक्वीटी शेयर आय सममूल्य रु० 10/- प्रत्येक						
	मूल आय प्रति शेयर (ईपीएस) (रु० में) (*वार्षिक नहीं)	10.49*	3.24*	8.54*	13.73*	11.44*	18.37
	तरल आय प्रति शेयर (ईपीएस) (रु० में) (*वार्षिक नहीं)	10.49*	3.24*	8.54*	13.73*	11.44*	18.37

		समेकित (आईएनआर मिलियन में)					
क्र० सं०	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त अर्धवार्षिक		समाप्त वार्षिक
		30-09-2025	30-06-2025	30-09-2024	30-09-2025	30-09-2024	31-03-2025
		अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित
1	संचालन से कुल आय	2,827.28	2,791.50	2,467.44	5,618.78	5,121.74	9,849.14
2	अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले)	505.06	446.56	275.56	951.62	608.03	1,142.74
3	कर से पहले अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	505.06	446.56	275.56	951.62	608.03	1,142.74
4	कर के बाद अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	393.85	344.64	211.46	738.49	460.38	880.04
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	369.68	309.73	151.81	679.41	431.47	828.39
6	युक्तता इक्वीटी कैपीटल (सममूल्य रु० 10/- प्रति शेयर)	451.34	451.34	451.34	451.34	451.34	451.34
7	रिजर्व रिवेल्युएसन रिजर्व को छोड़कर जैसा कि तुलन पत्र की तिथि को						8,420.81
8	प्रति इक्वीटी शेयर आय सममूल्य रु० 10/- प्रत्येक						
	मूल आय प्रति शेयर (ईपीएस) (रु० में) (*वार्षिक नहीं)	8.72*	7.64*	4.68*	16.36*	10.2*	19.50
	तरल आय प्रति शेयर (ईपीएस) (रु० में) (*वार्षिक नहीं)	8.72*	7.64*	4.68*	16.36*	10.2*	19.50



VPL

VARDHMAN POLYTEX LIMITED

Regd. Office: Vardhman Park, Chandigarh Road, Ludhiana-141 123  
CIN: L17122PB1980PLC004242, Phone: 0161- 6629888  
E-Mail- secretarial@vpl.in, Website: www.vpl.in

Notice to Shareholders

In accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, it is hereby informed to general public that, the **Special Window** has been opened for a period of 6 months **from July 07, 2025 till January 06, 2026**, only for Re-lodgement of Transfer Deeds, which were lodged prior to April 01, 2019 and rejected/ returned/ not attended to due to deficiency in the documents/ process or otherwise.  
If anyone had lodged the transfer deeds for transfer of physical shares before April 01, 2019 and required to re-lodge the same with necessary corrections, if any, may contact the RTA of the company- Alankit Assignments Limited, Alankit House, 4E/2 Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 (E) [rt@alankit.com](mailto:rt@alankit.com) (Tel.) +91-11-4254-1234/1956.  
Please note that during this period, the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the listed company / RTA, if any, as on date) shall be issued only in demat mode. Due process shall be followed for such transfer-cum-demat requests, therefore one must have demat account and provides its Client Master List ("CML") along with the transfer documents and share certificates, while re-lodging the documents for transfer with RTA.  
Shareholders holding shares in physical form are requested to update their KYC details with RTA and to dematerialize their physical shares on priority basis.  

For Vardhman Polytex Limited  
Sd/-  
Ajay K. Ratra  
Company Secretary

DURGESH MERCHANTS LIMITED

Registered Office: D-328, Basement Floor, Defence Colony, New Delhi-110024  
CIN: L65923DL1984PLC248322  
E-mail: [durgeshmerchants@gmail.com](mailto:durgeshmerchants@gmail.com) ;  
Contact No. 011-68888824

Extract of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter and Half- Year ended 30th September, 2025

(Rs. In Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended (Unaudited) 30-09-2025	Half Year Ended (Unaudited) 30-09-2025	Quarter Ended (Unaudited) 30-09-2024
1	Total Income from operations	14.97	30.85	13.72
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3.02	7.68	(3.19)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.02	7.68	(3.19)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.20	5.68	(3.19)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] (Refer Note No. 2)	22.48	20.28	(3.19)
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/-)	524.65	524.65	280.25
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):			
	Basic:	-	(0.01)	(0.01)
	Diluted:	-	(0.01)	(0.01)

Notes:-  
1- The Company is having only one business activity so the segment reporting under Ind AS-108 is not required. 2- The Above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 14th November 2025. The Statutory Auditor of the Company have provided Limited Review Report for the same. 3- Figures of previous periods were re-grouped/re-classified wherever necessary to confirm to the periods of current periods. 4- Indian Accounting Standards are applicable on the Company w.e.f.1st April 2019.

On Behalf of the Board  
For Durgesh Merchants Limited  
Sd/-  
Rohit Ahuja  
(Managing Director)  
DIN: 07859817

Date: 14.11.2025  
Place: Delhi

SOM DISTILLERIES AND BREWERIES LTD

(Formerly Known As Som Distilleries Breweries & Wineries Limited)

Registered Office: I.A. Zoo Plaza, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave, Kamal Cinema Road, New Delhi - 110028 Phone: +91-11-26169909, 26169712 Fax: +91-11-26195897  
Corporate Office: SOM House, 23, Zone II, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.)-462011  
Phone: +91-755-4278827, 4271271 Fax: +91-755-2557470 Email : [compliance@somindia.com](mailto:compliance@somindia.com)  
Website: [www.somindia.com](http://www.somindia.com) CIN : L74899DL1993PLC052787 (BSE : 507514, NSE : SDBLI)

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING / E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of the members of SOM DISTILLERIES AND BREWERIES LIMITED will be held on Friday, December 12, 2025 at 12:30 p.m. through Video Conference ("VC") or Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact businesses, as set out in the Notice convening the EOGM.  
The Company has commenced to send the Notice convening EOGM on November 14, 2025 through electronic mode to the Members whose email addresses are registered with the Company / Depositories in accordance with the relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The Notice convening the EOGM is available on the website of the Company at [www.somindia.com](http://www.somindia.com), the websites of BSE & NSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) & [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the website of NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).  
Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice convening the EOGM using remote e-voting prior to EOGM or e-voting (during the EOGM) ("e-voting") provided by NSDL. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the (Friday), December 5, 2025 ("cut-off date") only shall be entitled to avail the facility of e-voting. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date. For detailed instructions on attending the EOGM through VC/OAVM, members / shareholders are requested to go through the Notice of EOGM.  
**The Members are hereby informed that:**  
(i) The remote e-voting period commences on (Tuesday) December 9, 2025 (IST 9.00 am) and ends on (Thursday) December 11, 2025 (IST 5.00 pm). Member may note that remote e-voting shall not be allowed beyond the above said period.  
(ii) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as on the cut-off date: may obtain the login ID and password by sending a request to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting, he/she can use his/her existing User ID and password for casting the votes.  
(iii) members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EOGM may attend/ participate in the EOGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.  
(iv) Members may access the NSDL e-voting system at the web link: <https://www.evoting.nsdl.com> under shareholders/members login. The same link is valid for joining the EOGM on the meeting day. The detailed instructions for the remote e-voting process, joining the EOGM and e-voting during the EOGM are given in the Notice of the EOGM.  
(v) Members are permitted to join the EOGM through VC/OAVM, 15 minutes before the scheduled time of commencement of the meeting and upto 15 minutes after such scheduled time.  
(vi) Those members whose e-mail ids are not registered with the depositories for obtaining login credentials for e-voting are requested to send required details and documents as described in the EOGM Notice to Company's e-mail ID [compliance@somindia.com](mailto:compliance@somindia.com) or to RTA's e-mail ID [investor@masserv.com](mailto:investor@masserv.com)  
(vii) The documents referred to in the EOGM notice are available for inspection. Members may write to the Company's e-mail ID [compliance@somindia.com](mailto:compliance@somindia.com)  
(viii) Mr. Neelish Jain, Practicing Company Secretary (ICSI Membership no. FCS 6436) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the 'remote e-voting' (prior to EOGM) or e-voting (during the EOGM), in a fair and transparent manner.  
(ix) The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company at [www.somindia.com](http://www.somindia.com) and on the website of NSDL [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing.  
(x) Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker and may send their queries and request mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at [compliance@somindia.com](mailto:compliance@somindia.com) on or before (Saturday), December 6, 2025 (5:00 pm).  
In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and the e-voting manual available at <https://www.evoting.nsdl.com> under help section or contact at toll free number 1800225533. Email- [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or aforesaid toll-free number.  

By Order of the Board  
For Som Distilleries and Breweries Limited  
Sd/-  
Nakul Kam Sethi  
Director

Date: November 14, 2025  
Place: Bhopal

SMC CREDITS LTD.

24, Ashoka Chambers, 5-B Rajindra Park, Pusa Road, New Delhi - 110060  
CIN: L65910DL1992PLC049566  
Email id: [smccorp011@gmail.com](mailto:smccorp011@gmail.com), Ph: 011-45012880, Website: [www.smccredits.com](http://www.smccredits.com)

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025

The Board of Directors of the Company, at the meeting held on November 14, 2025, approved the unaudited financial results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2025.  

The results are available on the Stock Exchange website i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) (URL: [https://www.bseindia.com/corporates/annnet\\_new.aspx?newsid=5bb90dfd-33f9-452c-892d-f7b44cb3336c](https://www.bseindia.com/corporates/annnet_new.aspx?newsid=5bb90dfd-33f9-452c-892d-f7b44cb3336c)) and on the Company's website i.e. [www.smccredits.com](http://www.smccredits.com) (URL:- <https://www.smccredits.com/productpicture/802SMC%20%20Qtr%20%20UFR%20with%20LR.pdf>)  
The same can also be accessed by scanning the Quick Response Code provided:

By Order of the Board  
For SMC Credits Limited  
Sd/-  
Rajesh Goenka  
Whole Time Director & CFO  
DIN:00298227



Place: New Delhi  
Date: November 15, 2025

Note - The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

TARINI ENTERPRISES LIMITED

CIN: L51101DL2006PLC148967  
Regd Office: 3/14A, 1st Floor,Vijaynagar Double Storey, Delhi-110009  
Ph.011-61382621,  
Website: [www.tarinienterprises.in](http://www.tarinienterprises.in), E Mail: [tarinienterprisespvttid@gmail.com](mailto:tarinienterprisespvttid@gmail.com), [info@tarinienterprises.in](mailto:info@tarinienterprises.in)

Extract of Standalone Financial Results for the Quarter ended on 30th September, 2025

Amount in Lakhs

Particulars	Quarter and Three months ended 30/09/2025 Unaudited	Corresponding 3 months ended in the previous year 30/09/2024 Unaudited	Previous Quarter ended 30/06/2025 Unaudited	Half Year ended on 30.09.2025 Unaudited
Total Income from Operations (net)	31.55	23.28	29.57	61.33
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	10.13	6.95	15.98	25.43
Net Profit/(Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	10.13	6.95	15.98	25.43
Net Profit/(Loss) for the period (after Reserves)	7.16	5.13	9.44	14.63
Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	7.16	5.13	9.44	14.63
Paid-up equity share capital [Face value Rs. 10 per share]	377.30	377.30	377.30	377.30
Reserves (excluding revaluation reserves as Shown in the Balance Sheet of previous Year)	4,666.88	4,630.64	4,660.39	4,666.88
Earnings per share - (after extraordinary items)- (of Rs. 10/- each)	0.17	0.15	0.28	0.43
Diluted earnings per share- (after exceptional items)- (of Rs. 10/- each)	0.17	0.15	0.28	0.43

Notes:  
The above is an extract of the detailed format of the Standalone results for the three months ended on 30th September, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Lising and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone Financial Results for the three months ended on 30th September, 2025 are available on the Stock Exchange website [www.mse.in](http://www.mse.in) and the company Website.  



For Tarini Enterprises Limited  
Sd/-  
Abhay Chand Bardia  
Managing Director  
DIN: 00009217

Dated: 14.11.2025  
Place: Delhi

FORM NO. 5

DRT/Lko

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

(Jurisdiction-Part of U.P.)  
600/1, University Road, Near Hanuman Setu  
Mandir Lucknow-226007

Summons For Filing reply & Appearance By Publication

OA no. 805/2025 Date 12.11.2025  
(Summons to defendant under Section 19 (4) of the RECOVERY OF DEBTS AND BANKRUPTCY ACT, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993)

Bank Of India .....APPLICANT  
VERSUS  
M/s NITISHA TRADING COMPANY AND OTHERS .....DEFENDANTS  
To,  
1. M/s Nitisha Trading Company through its proprietorship concern of Mrs. Nikita Agarwal w/o Shri Dhiraj Agarwal R/O 109/5 G Model House near post office Lucknow 226001  
2. Mrs. Nikita Agarwal w/o Shri Dhiraj Agarwal R/O 109/5 G Model House near post office Lucknow 226001.  
3. Shri Dhiraj Agarwal S/o Late Surendra Kumar Agarwal R/O 109/5 G Model House near post office Lucknow-226001  
4. Shri Neeraj Agarwal S/o Late Surendra Kumar Agarwal R/O 109/5 G Model House near post office Lucknow-226001  
.....Defendants  
In the above noted application you are required to file reply in paper Book Form in Two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his Counsel/duly authorized agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 13.02.2026 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.  

Registrar  
Debt Recovery Tribunal  
Lucknow

FORM NO. 5

DRT/LKO

Regd. A/D DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

600/1 University Road, Near Hanuman Setu Temple, Lucknow  
(Area of Jurisdiction-Part of Uttar Pradesh)

DATED: 27-10-2025

Summons For Filing Reply & Appearance By Publication

O.A. No. 1433/2019  
Summons to defendants under Section 19(4), of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rule, 1993)

Bank Of India .....Applicant  
Versus  
Ankur Srivastava & Others .....Defendants  
To  
1. Shri Ankur Srivastava (Borrower) S/o. Shri Ravindra Nath Srivastava, R/o. 3/17, Virat Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (U.P.)  
Ilnd Address:-House No. 86, Satya Premi Nagar-5 Tehsil Nawabganj, Distt. Barabanki (U.P.)  
2. Smt. Shikha Srivastava (Co-Borrower) W/o. Shri Ankur Srivastava, R/o. 3/17, Virat Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (U.P.)  
3. Shri Ashish Kumar Srivastava (Guarantor) S/o. Shri Ravindra Nath Srivastava, R/o. 3/17, Virat Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (U.P.)  
4. Shri Adarsh Srivastava (Guarantor) S/o. Shri Ravindra Nath Srivastava, R/o. 3/17, Virat Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (U.P.)  
.....Defendants  
In the above noted application you are required to file reply in paper Book Form in Two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his Counsel/duly authorized agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 13.02.2026 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.  

Registrar  
Debts Recovery Tribunal  
Lucknow

NIMBUS REALTY

NIMBUS PROJECTS LIMITED

Regd. Office : 1001-1006, 10<sup>th</sup> Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110001  
Phone : 011-42878900, Email : [nimbusindia1td@gmail.com](mailto:nimbusindia1td@gmail.com), Website : [www.nimbusprojects1td.com](http://www.nimbusprojects1td.com) CIN : L74899DL1993PLC055470

Extract of Standalone & Consolidated Un-audited Financial Results for the Quarter & Half Year Ended 30<sup>th</sup> September, 2025 (₹ In Lakhs)

PARTICULARS	STANDALONE						CONSOLIDATED					
	Quarter ended 30.09.2025 (Un-audited)	Quarter ended 30.06.2025 (Un-audited)	Quarter ended 30.09.2024 (Un-audited)	Half Year ended 30.09.2025 (Un-audited)	Half Year ended 30.09.2024 (Un-audited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter ended 30.09.2025 (Un-audited)	Quarter ended 30.06.2025 (Un-audited)	Quarter ended 30.09.2024 (Un-audited)	Half Year ended 30.09.2025 (Un-audited)	Half Year ended 30.09.2024 (Un-audited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)
Total Income from operations (net)	35.53	35.63	58.18	71.17	92.69	151.12	437.49	389.63	585.82	827.12	17527.84	17829.71
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and after Exceptional Items)	(2315.96)	(311.67)	3175.44	(2627.63)	1938.66	(1019.22)	2787.83	(3278.61)	11225.84	(490.78)	13992.05	7045.28
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(2577.50)	(100.12)	2782.15	(2677.72)	1546.16	(1274.92)	1997.72	(3557.49)	9630.22	(1559.77)	12371.61	6367.50
Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/(Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(2576.90)	(101.62)	2782.29	(2678.52)	1545.56	(1275.18)	1998.48	(3567.55)	9626.31	(1569.09)	12373.07	6376.70
Equity Share Capital	1931.87	1083.80	1083.80	1931.87	1083.80	1083.80	1931.87	1083.80	1083.80	1931.87	1083.80	1083.80
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	-	-	11157.22 (As on 31.03.2025)	-	-	-	-	-	15961.89 (As on 31.03.2025)
Earnings Per Share (Face Value Rs. 10/- each)												
Basic: ₹	(14.96)	(0.92)	25.67	(15.54)	14.27	(11.76)	18.43	(32.82)	88.86	(14.39)	114.15	58.75
Diluted: ₹	(14.96)	(0.66)	25.67	(15.54)	14.27	(11.76)	13.21	(23.52)	88.86	(10.31)	114.15	58.75

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & Half Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website, [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website, [www.nimbusprojects1td.com](http://www.nimbusprojects1td.com)  

 Scan the QR Code to view the Results on the website of the Company

 Scan the QR Code to view the Results on the website of BSE Limited

On behalf of the Board  
For Nimbus Projects Limited  
Sd/-  
BIPIN AGARWAL  
(Managing Director)  
DIN : 00001276

Date : 14<sup>th</sup> November, 2025  
Place : New Delhi

ADITYA BIRLA CAPITAL

ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED

Registered Office- Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat - 362266  
Branch Office- Unit No. 2nd floor paras tower plot no. 507 scheme no. 1 mangal pandey nagar meerut Uttar pradesh-250002

APPENDIX IV

**[See Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]**  
**Possession Notice (for Immovable Property)**  
Whereas, the undersigned being the authorized officer of Aditya Birla Housing Finance Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 had issued a demand notice dated 05-09-2025 calling upon the borrowers NARENDRA SINGH TOMAR, SUNITA DEVI , NARENDRA SINGH TOMAR(IN THE CAPACITY OF AVAILABLE LEGAL HEIR OF NITIN TOMAR) & SUNITA DEVI (IN THE CAPACITY OF AVAILABLE LEGAL HEIR OF NITIN TOMAR) mentioned in the notice being of Rs. 26,04,600.08/- (Rupees Twenty Six Lac Four Thousand Six Hundred Eight Paise Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and to the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act. read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 14th day of November of the year, 2025.  
The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Aditya Birla Housing Finance Limited for an amount of Rs. 26,04,600.08/- (Rupees Twenty Six Lac Four Thousand Six Hundred Eight Paise Only) interest thereon. Borrowers attention is invited to the provisions of Sub-section 8 of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.  
**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**  
All That Piece And Parcel Of Nagar Palika No. 693, Having An Area 89 Sq. Yards I.E. 74.43 Sq. Meters, Consisting Of Khasra No. 1617 Situated At New Arya Nagar, Pilkhawa, Pargana Dasna, Tehsil Dhaulana, Distt. Hapur, Uttar Pradesh 245101 And Bounded As: East: 45 Ft. 5 Inch / House Of Other West: 44 Ft. / House Of Charan Singh North: 18 Ft./ Property Of Ganga Das Etc South: 18 Ft. / Rasta 11 Ft. Wide.  
Date: 14.11.2025  
Place: Hapur  

Authorised Officer  
Aditya Birla Housing Finance Limited

Sai Industries Limited

Regd. Office: 302, 3rd Floor, C-24, Community Centre, Ashok Vihar, Phase -2, New Delhi -110052  
CIN:L74899DL1991PLC045578 Email id: [saiindustries93@gmail.com](mailto:saiindustries93@gmail.com)

Statement of Un-audited Financial Results for the Quarter ended 30th September 2025 (Rs. in Lacs except per share data)

PARTICULARS	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
	30.09.2025 (Un-Audited)	30.06.2025 (Un-Audited)	30.09.2024 (Un-Audited)	30.09.2024 (Un-Audited)	
1 Total Income from operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Net profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.13)	(0.03)	(1.04)	(2.16)	(1.14)
3 Net profit/(loss) for the period before Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.13)	(0.03)	(1.04)	(2.16)	(1.14)
4 Net profit/(loss) for the period after Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.13)	(0.03)	(1.04)	(2.16)	(1.14)
5 Paid-up Equity Share Capital	296.76	296.76	296.76	296.76	296.76
6 Reserve excluding Revaluation Reserve	(478.00)	(475.87)	(473.59)	(478.00)	(473.69)
7 Earning Per Share (Of Rs 10/- each share) (for continuing and discontinued operation) (a) Basic (b) Diluted					
	(0.07)	-	(0.03)	(0.07)	(0.04)

Note: 1) The above is an extract of the detailed format of Quarter ended financial results filed with the Stock Exchange under Reg 33 of SEBI (LODR), 2015. The full formats are available on Stock Exchange websites and on Company's Website  



By the Order of Board  
Sai Industries Limited  
Sd/-  
Ajay  
DIN : 09212447

Date : 13.11.2025  
Place : Delhi

INDIAN EXPRESS GROUP

THE BIGGEST CAPITAL ONE CAN POSSESS KNOWLEDGE

FINANCIAL EXPRESS  
Read to Lead

epaper.financialexpress.com

New Delhi